

## \*प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 14.11.2021 जनपद देवरिया\*

दिनांक 13.11.2021 को पुलिस अधीक्षक देवरिया डा0 श्रीपति मिश्र द्वारा कच्ची शराब के निष्कर्षण, बिक्री एवं संलिस अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु संभावित स्थानों पर दबिश आदि की कार्यवाही करने हेतु जनपदीय पुलिस को निर्देशित किया गया। जिसके क्रम में समस्त क्षेत्राधिकारी, प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष मय पुलिस फोर्स द्वारा अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत ईंट भट्टों, देवारा क्षेत्रों एवं संभावित स्थानों पर दबिश देकर मौके से कुल लगभग 68 लीटर अवैध शराब बरामद करते हुए कुल 06 अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर उनके विरुद्ध 06 अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार विधिक कार्यवाही किया गया।

### **\*01.थाना तरकुलवा पुलिस द्वारा एक अदद नाजायज चाकू के साथ 01अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया:-\***

दिनांक 13.11.2021 को थानाध्यक्ष तरकुलवा मय फोर्स देखभाल क्षेत्र, रोकथाम अपराध, तालाश वांछित अभियुक्त हेतु क्षेत्र में भ्रमणशील थे, कि मुखबिर से सूचना पर बंजरिया तिराहा से एक व्यक्ति को एक अदद नाजायज चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त से नाम पता पूछने पर अपना नाम व पता **विवेक कुमार पुत्र रामदरश प्रसाद सा0 गौरकोठी थाना बरियारपुर देवरिया।** बताया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01अदद नाजायज चाकू बरामद करते हुये तरकुलवा पुलिस द्वारा 4/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### **\*02.थाना रुद्रपुर पुलिस द्वारा एक अदद नाजायज तमंचा के साथ 01अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया:-\***

दिनांक 13.11.2021 को थानाध्यक्ष रुद्रपुर मय फोर्स देखभाल क्षेत्र, रोकथाम अपराध, तालाश वांछित अभियुक्त हेतु क्षेत्र में भ्रमणशील थे, कि मुखबिर से सूचना पर मझने नाला पुलिया के पास से एक व्यक्ति को एक अदद नाजायज तमंचा 315 बोर मय एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त से नाम पता पूछने पर अपना नाम व पता **शाहरुख अंसारी पुत्र नूर मोहम्मद अंसारी साकिन महेशपुर थाना गोला बाजार गोरखपुर** बताया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद नाजायज तमंचा 315 बोर मय एक अदद जिन्दा कारतूस बरामद करते हुये रुद्रपुर पुलिस द्वारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### **\*03. निरोधात्मक कार्यवाही-\***

दिनांक 13.11.2021 को देवरिया पुलिस द्वारा चलाये गये अभियान में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निरोधात्मक कार्यवाही की गयी, जिनका विवरण निम्नवत है-

➡जनपदीय पुलिस द्वारा 151 सीआरपीसी के अन्तर्गत 31 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही किया गया।

### **\*04. जनपदीय पुलिस द्वारा मोटर वाहन अधिनियम में कार्यवाही-\***

दिनांक 13.11.2021 को जनपदीय पुलिस द्वारा शातिर अपराधियों, संदिग्ध व्यक्तियों, संदिग्ध वाहनों के विरुद्ध चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसके परिप्रेक्ष्य में जनपद के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण निम्नवत है-

➡वाहन चेकिंग के दौरान 69 वाहनों से 71,500 रुपये शमन शुल्क (ई-वालान) किया गया।

